



सुखी और स्वस्थ परिवार,  
स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल है आधार ।



सुरक्षित स्रोत जैसे हैंडपंप, नल या बंद कुआँ  
आदि का पानी ही पीने के लिए इस्तेमाल करें।

पानी निकालते समय बर्तन में हाथ ना डुबायें।  
पानी निकालने के लिए डंडी वाले लोटे का ही प्रयोग करें।



पीने के पानी के बर्तन को हमेशा ढक  
कर रखें एवं जमीन से ऊपर और साफ स्थान पर रखें।